



CP  
2/5/86

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70]  
No. 70]

नई दिल्ली सोनवार, मार्च 31, 1986/चैत्र 10, 1908  
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 31, 1986/CHAITRA 10, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as  
a separate compilation

राष्ट्रपति सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1986

सं. 31 प्रेक्ष/86:—राष्ट्रपति निम्नलिखित उपाधियां सहर्ष प्रदान करते हैं :-

पद्म निभूषण

प्रोफेसर भीतार सिंह पैटन, निदेशक, बल्लभभाई पटेल चेम्स इंस्टी-ट्यूट, दिल्ली

श्री विरजू महाराज (कथक), नई दिल्ली।

श्री मुस्ली धर, देविदास (उर्फ) बाबा आमटे (समाज-कुष्ठरोग उन्मूलन) बरोरा, महाराष्ट्र।

पद्म भूषण

डा. बद्रीनाथ टंडन (जधरान्वरीय विज्ञान तथा मानवविकास), नई दिल्ली।

श्री चोक्कनातेपुरम वैकटरामन मुन्दरम, निदेशक, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल।

श्रीमती इंदो रमेश शेट्टी, महा सचिव, स्व-रोजगार प्राप्त महिला संघ, अहमदाबाद, गुजरात।

श्री पुनसन लाल टंडन, अध्यक्ष, कोरा इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल।

श्री जी रिवू (फेस्टिवल आफ इंडिया), फ्रांस (मन्थोपरान्त)

ले. जनरल (रिटाईर) डा. मनोहर लाल डिग्बर, नई दिल्ली।

श्री मातंग सिंह (प्रवर्तनी तकनीक, ह्याटरवा, आदि), नई दिल्ली।

उस्ताद नामिर अलीनुद्दीन डाबर, संगीतज्ञ (ध्रुपद), कलकत्ता, पश्चिम बंगाल।

डा. पुष्प मित्र भार्गव, डायरेक्टर, सेन्टर फार तेलुगु एण्ड मोलि-क्यूलर वांग्लोलांग, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश।

श्री राजेंद्र सेठ, डिजाइन तथा कला परियोजना परामर्शदाता, नई दिल्ली।

श्री राम कृष्ण त्रिवेदी, भूतपूर्व मुख्य निरीक्षक अणुऊर्जा, नई दिल्ली।

डा. ए. डिल्लन रिफे (फेस्टिवल आफ इंडिया), यू.एस.ए.।

डा. बलरत्नचंद्र श्री निवास राघवन अणुगाचलम, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सहायक, नई दिल्ली।

श्री वैकटरमण कृष्णमूर्ति, अध्यक्ष, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली।

पद्म श्री

प्रोफेसर अब्दुर्रहमान, भूतपूर्व निदेशक, राष्ट्रीय विज्ञान प्रोत्साहिकी तथा विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली।

श्री अनिल कुमार अग्रवाल (प्राकृतिक संतुलन विज्ञान तथा पर्यावरण), नई दिल्ली।

श्री अनिल कुमार लखीना, निदेशक, महाराष्ट्र विकास प्रशासन संस्थान, पुणे, महाराष्ट्र।

कुमारी अनुपमा गजानन अम्बरकर (शतरंज), बम्बई, महाराष्ट्र।

श्री अवधेश कौशल (पर्यावरण संरक्षण), देहरादून, उत्तर प्रदेश।

श्री विनोद कानूनगो (उड़िया विश्वकोश) कटक, उड़ीसा।

श्री चण्डी प्रसाद भट्ट (प्राकृतिक संतुलन विज्ञान तथा पर्यावरण), चमोली, उत्तर प्रदेश।

डा. (श्रीमती) चित्रा जयंत नारिक (प्राथमिक तथा अन्तःपचारिक शिक्षा), पुणे, महाराष्ट्र।

श्री गौतम सिरीराम सेठी (ब्रिटिश इंडिया), अहमदाबाद, गुजरात।

अवैतनिक कमोडोर गोकलदास शिवलदास आहूजा (सी फेडेट कोर) बम्बई, महाराष्ट्र।

श्री गोविन्द श्रीमाचार्य जोशी, नाटककार तथा प्रकाशक, धारवाड़, कर्नाटक।

श्री हिसामुद्दीन उस्ता (लेकर वर्क), बीकानेर, राजस्थान।

श्रीमती कणिका वन्चोपाध्याय (रवीन्द्र संगीत), शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल।

श्री कृष्ण देव दीवान (ग्राम विकास) वैशाली, बिहार।

श्रीमती महाश्वेता देवी (जनजातीय लोगों का विकास), कलकत्ता पश्चिम बंगाल।

श्री मौहम्मद शाहिद (हाकी), वाराणसी, उत्तर प्रदेश।

श्री नारायण सिंह माणकलदास (नशे के श्रापी व्यक्तियों का सुधार), जोधपुर, राजस्थान।

श्रीमती नुसुमी रेनबजेई (मिर्जा काव्य), मिर्जोरम।

श्री रघुनाथ शर्मा, संस्कृत भाषा तथा साहित्य, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।

श्री राजकुमार सिंहजीत सिंह (मणिपुरी नृत्य नाटिका), नई दिल्ली।

श्री रमेश इन्दर सिंह, उपायुक्त, अनूपसर, पंजाब।

श्री संजीत (बंकर) राय (समाज सेवा-ग्रामीण विकास), नई दिल्ली।

प्रोफेसर संतोष कुमार कर्कर (सामुदायिक विज्ञान), नई दिल्ली।

श्री शोक नाज़र (बंराकथा लोक-कला), गन्धार, आन्ध्र प्रदेश।

श्री शंकरराव मास्तीराव शिंदे (उर्फ) शंकर कापुर्जा अध्येतावकर, संगीतज्ञ (पञ्चावज), जिला बीर, महाराष्ट्र।

डा. सोम सुन्दरम, सुब्रह्मय्यन, निदेशक, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, नई दिल्ली।

श्री सुब्रत मित्रा (सिनेमाटोग्राफी), कलकत्ता, पश्चिम बंगाल।

श्री स्वरूप कृष्ण रेड्डी, क्रिकेट अम्पायर, नई दिल्ली।

श्री तुषार कान्जीलाल (शिक्षा तथा ग्रामीण विकास), रंगबेलिया, पश्चिम बंगाल।

डा. विष्णुनाथन जन्ता, निदेशक केंद्र अनुसंधान संस्थान, अड्यार, मद्रास, तमिऴनाडु।

शु. नीलकण्ठन, राष्ट्रपति का उप सचिव

## PRESIDENT'S SECRETARIAT

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January, 1986

**No. 31-Pres-86.—The President is pleased to make the following awards :—**

#### PADMA VIBHUSHAN

Professor Autar Singh Paintal, Director, Vallabh-bhai Patel Chest Institute, Delhi.

Sri Birju Maharaj (Kathak), New Delhi.

Shri Murlidhar Devidas Alias Baba Amte (Social Service—Eradication of Leprosy) Warora, Maharashtra.

#### PADMA BHUSHAN

Dr. Badri Nath Tandon (Gastroenterology & Human Nutrition), New Delhi.

Shri Chokkanathapuram Venkataraman Sundaram, Director, Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam, Madras, Tamil Nadu.

Smt. Ela Ramesh Bhatt, General Secretary, Self Employed Women's Association, Ahmedabad, Gujarat.

Shri Gulshan Lal Tandon, Chairman, Coal India Ltd., Calcutta, West Bengal.

Shri Jean Riboud (Festival of India), France (Posthumous).

Lt. General (Retired) Dr. Manohar Lal Chibber, New Delhi.

Shri Martand Singh (Exhibition Techniques, Hand-looms etc.), New Delhi.

Ustad Nasir Aminuddin Dagar, Musician (Dhrupad), Calcutta, West Bengal.

Dr. Pushpa Mitra Bhargava, Director Centre for Cellular and Molecular Biology, Hyderabad, Andhra Pradesh.

Shri Rajeev Sethi, Consultant in Design & Art Projects, New Delhi.

Shri Ram Krishna Trivedi, Formerly Chief Election Commissioner, New Delhi.

Dr. S. Dillon Ripley (Festival of India), USA.

Dr. Vallampadugai Srinivasa Raghavan Arunachalam, Scientific Adviser to Raksha Mantri, New Delhi.

Shri Venkataraman Krishnamurthy, Chairman, Steel Authority of India Ltd., New Delhi.

**PADMA SHRI**

Professor Abdur Rahman, formerly Director of the National Institute of Science, Technology and Development Studies, New Delhi.

Shri Anil Kumar Agarwal, (Ecology and Environment), New Delhi.

Shri Anil Kumar Lakhina, Director, Maharashtra Institute of Development Administration, Pune, Maharashtra.

Kumari Anupama Gajanan Abhyankar (Chess) Bombay, Maharashtra.

Shri Avdhesh Kaushal (Environment Protection), Dehra Dun, U.P.

Shri Binode Kunungo, Encyclopaedia in Oriya), Cuttack, Orissa.

Shri Chandi Prasad Bhatt (Ecology and Environment) Chamoli, U.P.

Dr. (Smt.) Chitra Jayant Naik (Primary and non-formal Education), Pune, Maharashtra.

Shri Geet Siriram Sethi, (Billiards), Ahmedabad, Gujarat.

Hon. Commodore Gokaldas Shivaldas Atreja (Sea Cadet Corps), Bombay, Maharashtra.

Shri Govind Bhimacharya Joshi, Playwright & Publisher, Dharwad, Karnataka.

Shri Hisamudin Usta (Lacquer Work), Bikaner, Rajasthan.

Smt. Kanika Bandyopadhyaya (Rabindrasangeet) Santiniketan, West Bengal.

Shri Krishan Dev Dewan (Rural Development) Vaishali, Bihar.

Smt. Mahasveta Devi (Development of Tribal People) Calcutta, West Bengal.

Shri Mohammed Shahid (Hockey), Varanasi, U.P.

Shri Narayan Singh Manaklao (Rehabilitation of Drug Addicts), Jodhpur, Rajasthan.

Smt. Nuchhungi Renthlei (Mizo Poetry), Mizoram.

Shri Raghunath Sharma, Sanskrit Language and Literature, Varanasi, U.P.

Shri Rajkumar Singhajit Singh, (Manipuri ballet), New Delhi.

Shri Ramesh Inder Singh, Deputy Commissioner, Amritsar, Punjab.

Shri Sanjit (Bunker) Roy (Social Service—Rural Development), New Delhi.

Professor Santosh Kumar Kacker, (Otolaryngology), New Delhi.

Shri Shaik Nazar (Folk Art of Burrakatha) Guntur, Andhra Pradesh.

Shri Shankarrao Marutirao Shinde Alias Shankar Bapuji Appegaonkar, Musician (Paktawaj), District Bhir, Maharashtra.

Dr. Somasundaram Subramanian, Director, Special Protection Group, New Delhi.

Shri Subrata Mitra (Cinematography), Calcutta, West Bengal.

Shri Swarup Krishan Reddy, Cricket Umpire, New Delhi.

Shri Tushar Kenjilal (Education & Rural Development) Rangabalia, West Bengal.

Dr. Viswanathan Shanta, Director, Cancer Research Institute, Adyar, Madras.

S. NILAKANTAN, Dy. Secy. to the President